

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2017/अग्राहायण 30, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 387
No. 459] DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2017/AGRAHAYANA 30, 1939 [N.C.T.D. No. 387

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

सं. फा. 12(1)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-vi/824.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन), नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 56 में संशोधन :-** दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित) में नियम 56 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“(क) वह लाइसेंस की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर उन मादक पदार्थों की सूची उपायुक्त को प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक ब्रांड के बिक्री मूल्य का उल्लेख होगा। उपायुक्त उसको अपना स्टॉक विद्यमान लाइसेंसधारियों को बेचने के लिये समय देगा जो 15 दिनों से अधिक नहीं होगा :

उपबंध है कि यदि वह लाइसेंस की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर सूची प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आबकारी शुल्क के 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने पर उपायुक्त उसे पन्द्रह दिन का और अतिरिक्त समय दे सकता है।

आगे उपबंध है कि यदि वह उक्त पन्द्रह दिन के भीतर स्टॉक के निपटान में असफल रहता है तो आबकारी शुल्क के 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने पर उपायुक्त उसे स्टॉक के निपटान के लिये पन्द्रह दिन का और अतिरिक्त समय दे सकता है।

यह भी उपबंध है कि शुल्क का रिफंड, यदि भुगतान किया गया है तो नष्ट किये गये शराब के स्टॉक पर नहीं दिया जायेगा।”

3. नियम 154 में संशोधन :- मूल नियमावली के नियम 154 में :-

(i) उपनियम (2) में, लाइसेंस की अन्य श्रेणियों के लिये लाइसेंस शुल्क से संबंधित तालिका में —

क्रम संख्या 19 पर प्रविष्टि के लिये तालिका के अन्त में, चौबीस घंटें शराब प्रदान करने के लिये शुल्क : (1) पांच सितारा—30,00,000/—रुपये (2) पांच सितारा डीलक्स तथा उससे ऊपर 40,00,000/—रुपये (3) मोटल (डीलक्स) 20,00,000/—रुपये को प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :-

“चार सितारा होटल, पांच सितारा होटल, पांच सितारा डीलक्स तथा उच्चतर श्रेणी के होटलों और मोटलों (डीलक्स) में 24 घंटे शराब प्रदान करने का शुल्क विशेष रेस्तरां की मूल वार्षिक लाइसेंस फीस से 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा।”

(ii) उपनियम (4) में अन्य शुल्क (परमिट/पास/आयात/निर्यात) से संबंधित तालिका में—

(क) क्रम संख्या 10 पर कॉलम सं. 5 में प्रविष्टि 01 के सामने वर्तमान अंक “5000” के स्थान पर अंक “7500” प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

(ख) क्रम सं. 14 पर कॉलम संख्या 4 तथा 5 में प्रविष्टि (ख) के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां सन्निविष्ट की जायेंगी:-

“(ग) दिल्ली से अन्य राज्य को शराब के निर्यात के लिये निम्नलिखित शुल्क प्रभारित किया जायेगा:- (1) स्पिरिट (व्हिस्की, वोदका, रम, जिन, ब्रांडी) (2) वाइन/लिकर/एलकोपोप/ मिश्रित अल्कोहोलित बेव्रिजिज (3) बीयर	(1) 2.00/—रुपये प्रति बल्क लीटर (1) 1.00/—रुपये प्रति बल्क लीटर (1) 1.00/—रुपये प्रति बल्क लीटर
--	---

(ग) क्रम सं. 14 के पश्चात् निम्नलिखित 14क सन्निविष्ट किया जायेगा:-

क्र. सं.	नियम	परमिट/पास का फार्म	विवरण	शुल्क (रुपये में)
“14क	33 (15)	पी-15	शराब के परिवहन के लिये परिवहन परमिट हेतु शुल्क	100/—रुपये प्रति परमिट”

(घ) क्रम सं0 16 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या 17 सन्निविष्ट किया जायेगा:-

क्र. सं.	नियम	परमिट/पास का फार्म	विवरण	शुल्क (रुपये में)
“17	66 (11)		लाइसेंस प्राप्त परिसर में अतिरिक्त डिस्पेंसिंग काउंटर के लिये	प्रति डिस्पेंसिंग काउंटर लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप सचिव-VI(वित्त)

NOTIFICATION

Delhi, the 20th December, 2017

No. F. 12(1) /Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/824.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely:-

1. **Short Title and Commencement .-** (1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Amendment in rule 56 -** In the Delhi Excise Rules, 2010 (hereinafter referred to as the principal Rules) in rule 56, for clause(a), the following shall be substituted, namely:-

“(a) he shall submit to the Deputy Commissioner the list of such intoxicants **within thirty** days from the expiry of the licence indicating therein the sale price of each brand. The Deputy Commissioner may allow him time, not exceeding fifteen days, for the disposal of such stocks to the existing licensees:

Provided that if he fails to submit the stocks list within thirty days from the expiry of licence, the Deputy Commissioner may allow him further time of fifteen days on making additional payment of 10% of the Excise Duty:

Provided further that if he fails to dispose off the stock within said fifteen days, the Deputy Commissioner may allow him fifteen days additional time to dispose off the stock on payment of 10% of the additional Excise Duty:

Provided also that no refund of duty, if paid, shall be allowed on stocks of liquor which are destroyed.”

3. **Amendment in rule 154 -** In the principal Rules, in rule 154, -

- (i) in sub- rule (2), in the table relating to Licence Fees for Other Category of Licences, –
At S.No. 19, in the end of the table for entries,

“ Fee for service of liquor round the clock :

- (i) 5 Star – Rs. 30,00,000/-
- (ii) 5 Star Deluxe and above – Rs. 40,00,000/-
- (iii) Motels (Deluxe) – Rs. 20,00,000/- ”

the following shall be substituted, namely:-

“ Fee for service of liquor round the clock for 4 Star hotels, 5 Star hotels, 5 star Deluxe and above category hotels and Motels (Deluxe) shall be additional 50% of the basic annual licence fee of that particular restaurant.”

- (ii) In sub- rule (4), in the table relating to Other Fees(Permit/Pass/Import/ Export), –
 - (a) at S.No. 10 in column No. 5 for the existing figure “5000” against entry I., the figure “7,500” shall be substituted.
 - (b) at S.No. 14 in columns No. 4 and 5 , after entry (b) the following entries shall be inserted respectively, namely:-

	“(c) Following fee shall be charged for export of liquor from Delhi to other states:- (i) Spirits (Whisky, Vodka, Rum, Gin, Brandy) (ii) Wine/Liqueur/Alcopop/ Mixed Alcoholic Beverages (iii) Beer	(i) Rs. 2.00 per bulk litre (ii) Rs. 1.00 per bulk litre (iii) Rs. 1.00 per bulk litre ”
--	--	--

- (c) after S.No. 14, the following S.No. 14A, shall be inserted, namely:-

S.No.	Rule	Form of Permit/ Pass	Description	Fee (in Rs.)
"14A.	33(15)	P-15	Fee for transport permit for transport of liquor	Rs. 100/- per permit"

(d) after S.No. 16, the following S.No. 17, shall be inserted, namely:-

S.No.	Rule	Form of Permit/ Pass	Description	Fee (in Rs.)
"17	66(11)		Additional dispensing counter in the licensed premises	10% of the licence fees per dispensing counter."

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy. –VI (Finance)